

SUMMER VACATION ASSIGNMENT 2025-26 -GRADE-V

Prepare your Summer Vacation Assignment with coloured sheets and keep different colours for different subjects as under

English – Pink	Social Sc. -Light Grey	Science – Light Green
Hindi-Sky Blue	Comp. Sc- Light Yellow	Punjabi- Light Purple
Maths -Light Orange	Art - White	

ASSIGNMENT PART -I- ENGLISH

- WORK SHEET -I-** Read newspaper every day during vacation and paste the Headline of the most important news daily that you liked most for 30 days.

FORMAT FOR RECORDING HEADLINES

Sr. No.	Date	Head Line from News Paper
---------	------	---------------------------

- WORK SHEET -II-** Refer Annexure -I
- WORK SHEET -III-** Refer Annexure -II
- WORK SHEET -IV-** Refer Annexure -III
- WORK SHEET -V-** Refer Annexure -IV
- WORK SHEET -VI-** Refer Annexure -V

ASSIGNMENT PART -II-MATHS

- WORK SHEET -I-** Refer Annexure -VI
- WORK SHEET -II-** Refer Annexure -VII
- WORK SHEET -III-** Refer Annexure -VIII
- WORK SHEET -IV-** Write and Learn Multiplication Table from 2 to 20
- WORK SHEET -V-** PROJECT WORK

Collect information about different currencies around the World and compare with Indian currency. Draw /paste currencies of different countries.

Criteria: · Research on around 5 to 7 countries' currencies including Indian currency. · Collect the images, name and symbol for each of them. Compare each currency value with Indian currency. Make an album to represent your research work.

Learning Outcomes: Students will understand about the financial interdependence of countries around the World. Students will learn about function and comparison of currencies.

Self-Reflection: Write in brief about your experience during research, understanding and learning.

- WORK SHEET -VI-** Refer Annexure -IX -Roman Numbers

ASSIGNMENT PART -III- HINDI

1. पारस स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक लड़का जो देख नहीं सकता था सड़क पार कराने के लिए आवाज़ लगा रहा था। किंतु पारस उस के सामने से चुपचाप निकल गया। आप होते तो क्या करते ? कुछ दूरजाकर पारस एक पत्थर से टकरा कर गिर गया। कुछ लोगों ने उसे उठाया और उसकी मदद की। पारस को उस समय कैसे लगा होगा ।
2. आँख खुल जाना एक मुहावरा है। जिसका अर्थ है ज्ञात हो जाना। आंख से जुड़े अन्य मुहावरे लिखें और अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग करें।
3. कहानी पूरी कीजिए बहुत गरमी थी। सूरज भी बहुत तेज़ चमक रहा था। सब पक्षी अपने घोंसलों में छिपकर बैठे थे। एक चिड़िया अपने घोंसले से इधर उधर झांक रही थी वह सोचने लगी.....
4. तेनाली राम ,मुल्ला नसरुद्दीन एवं अकबर बीरबल इन तीनों में से किन्हीं दो के किस्से लिखिए और उनसे संबंधित चित्र भी चिपकाएँ।
- 5- कक्षा पहली से पाँचवी तक हिंदी भाषा के सीखने का अपना अनुभव विषय पर १०० शब्दों का अनुच्छेद लिखिए।
6. अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ “कबीर के दोहे” से चार दोहों का अर्थ सचित्र वर्णन करो

ASSIGNMENT PART -IV SCIENCE

1. Choose any Sub Topic from Lessons and prepare chart on same
Growing Plants - Section C
Safety and First Aid - Section B
Skeletal System and Nervous System - Section A
2. Prepare a PP presentation on Health and Hygiene
3. Food and Health -Refer Annexure -X

ASSIGNMENT PART -V- SOCIAL SCIENCE

1. Project Work
Draw a circle to denote the earth. Mark 6 to 8 lines of latitude and 8-10 lines of longitude. Stick wool of one colour on the latitudes and of another colour on the longitudes and complete the grid.
2. Read the newspaper every day. Record the temperature and humidity on A4 Sheet . Find out whether it will be a sunny day or a cloudy day.
3. Through a decorated diagram on A4 sheet show the Movements of the Earth-their Effects

ASSIGNMENT PART -VI- COMPUTER SCIENCE

1. Refer Annexure -XI and prepare three work sheets .

ASSIGNMENT PART -VII- PUNJABI

WORK SHEET -I ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਚਿੱਤਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਲਾਇਨਾਂ ਲਿਖੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਹੈ।

WORK SHEET -II ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ :-

Section A- ਕੁਦਰਤ

Section B- ਤਿਉਹਾਰ

Section C- ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ

ASSIGNMENT PART -VIII-ART AND CRAFT

WORK SHEET -I- 15th June is Father's Day -Prepare a Greeting for your Dad

WORK SHEET -II- 21st June is World Yoga Day -Prepare a poster showing various YOGA AASANS

ASSIGNMENT PART -IX-GENERAL

1. Write one Handwriting page daily in language as under

a) Monday , Tuesday Wednesday - ENGLISH

b) Thursday , Friday - HINDI

c) Saturday , Sunday - PUNJABI

2. Learn and Write at least 3 new English letters from dictionary to build up your vocabulary (Make a date wise record)

Annexure -1 Read the passage and answer the questions given below.

The Magic Garden

Once upon a time, in a quiet village, there was a little garden behind an old cottage. It was filled with colourful flowers, butterflies, and chirping birds. But this was no ordinary garden - it was a magic garden! Every night, when the moon shone brightly, the flowers would whisper stories to one another. The butterflies would dance, and the birds would sing soft lullabies.

One day, a young girl named Meera moved into the cottage with her grandmother. Curious about the garden, Meera tiptoed outside at night and was amazed to see the flowers moving and laughing gently in the moonlight. From that day on, she visited the garden every night and listened to the beautiful stories the flowers told. She promised to take care of the garden forever.

A. Fill in the blanks:

- i. The magic garden was behind an old _____.
- ii. The garden was filled with flowers, butterflies, and _____.
- iii. The flowers whispered _____ to one another.
- iv. Meera moved in with her _____.

B. Multiple Choice Questions (MCQs):

- i. What made the garden magical?
 - a) It was very big.
 - b) The flowers whispered stories.
 - c) There were talking animals.
 - d) It had a fountain.
- ii. When did the garden come alive?
 - a) in the morning
 - b) during the rain
 - c) at night
 - d) at sunset
- iii. Who took care of the garden in the end?
 - a) Meera's grandmother
 - b) The villagers
 - c) Meera
 - d) No one

C. Answer the following questions:

- i. Describe what Meera saw in the garden at night.
- ii. Why do you think Meera promised to take care of the garden?
- iii. If you had a magic garden, what would you want it to do?

D. Analogy-Based Questions:

1. Meera : Garden :: Flowers : _____

- a) Lullabies b) Moonlight c) Stories d) Butterflies

2. Whisper : Speak softly :: Laugh : _____

- a) Smile b) Giggle c) Shout d) Cry

3. Day : Sunlight :: Night : _____

- a) Flowers b) Moonlight c) Magic d) Sleep

E. Assertion and Reason Questions:

1. **Assertion (A):** Meera visited the garden every night.

Reason (R): The flowers in the garden gave her sweets and gifts.

- a) Both A and R are true, and R is the correct explanation of A.
b) Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A.
c) A is true, but R is false. d) A is false, but R is true.

2. **Assertion (A):** The garden was magical.

Reason (R): The garden could talk during the day.

- a) Both A and R are true, and R is the correct explanation of A.
b) Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A.
c) A is true, but R is false. d) A is false, but R is true.

Annexure- 2 (Vocabulary Enrichment)

A. Match the words with their meanings:

Words

Meanings

1. assist

a) to find something

2. discover

b) to help someone

3. observe

c) telling the truth

4. honest

d) to look carefully

B. Fill in the blanks with the correct Adjective.

a. The fireman was very _____ to save the puppy.

b. We should always be _____ to animals.

c. Riya loves her _____ dress.

d. I have a _____ robot.

C. Write the synonym of the given words:

a. big _____

b. happy _____

c. smart _____

d. help _____

D. Write the antonym of the given words:

a. fast _____

b. kind _____

c. open _____

d. win _____

E. Use the following words in your own sentences:

a. journey _____

b. honesty _____

c. surprise _____

d. imagine _____

F. Think and Answer: (30 to 40 words)

a. Which word would you use to describe a person who always tells the truth? Why?

b. Can you think of a situation where it's important to be brave? Describe in 2-3 lines.

Annexure- 3 (Types of Nouns)

A. Identify the noun and categorize them:

Read the following sentences. Identify the nouns in each sentence

& write whether they are Common Noun, Proper Noun, Abstract Noun , Concrete Noun, or Collective Noun.

Noun

Type of Noun

i. The team won the championship.

ii. Riya loves to read books.

iii. Happiness is the key to success.

iv. The elephant is in the zoo.

v. My brother plays football every weekend.

vi. The classroom was filled with excitement.

vii. London is a beautiful city.

viii. The bouquet of flowers smelled amazing.

xi. The crowd cheered loudly.

B. Write your own examples: (one each)

i. Common Noun: _____

ii. Proper Noun: _____

iii. Concrete Noun: _____

iv. Abstract Noun: _____

v. Collective Noun: _____

C. Create a short paragraph (3-4 sentences) that includes at least:

❖ One Proper Noun

❖ One Collective Noun

❖ One Abstract Noun

Annexure- 4- Verb Forms

A. Fill in the blanks with the correct form of the verb in brackets:

- i. Riya _____ (go) to the market yesterday.
- ii. I have _____ (eat) my lunch already.
- iii. They are _____ (play) in the garden now.
- iv. He _____ (write) a letter last night.
- v. She has _____ (draw) a beautiful picture.

B. Match the verb with its correct past and past participle forms:

Base Form	Past Form	Past Participle
1. go	a. drew	i. gone
2. eat	b. went	ii. drawn
3. draw	c. ate	iii. written
4. write	d. wrote	iv. Eaten

C. Write the past and past participle forms of the following verbs:

Base Form	Past Form	Past Participle Form
i. be		
ii. come		
iii. do		
iv. has		

D. Use the following verbs in sentences (any tense):

- i. bring - _____
- ii. sing - _____
- iii. fly - _____
- iv. begin - _____
- v. choose - _____

Annexure- 5- Book Review

Dear Students,

Now it's time to share your thoughts.

You can choose one of the following books or any one of English Children's Classics

i. Alice in Wonderland

ii. Aladdin and the Magical Lamp

iii. The Jungle Book (For Sample)

Write a short book review including the following points:

i. Title of the book

ii. Author of the book

ii. Main characters

iii. What is the story about?

iv. Your favourite part of the story

v. What did you learn from the book?

vi. Would you recommend this book to a friend? Why or why not?

Write in your own words and be as creative as you like!

ANNEXURE -VI- Maths

1. Find the missing digits in the following subtractions:

	9		8	
-	2		8	
	7	1	0	6

		2	0	5
-	3			
	5	3	3	2

	4	3	5	8
-			1	
	1	6		9

2. Magic Square: The box given below is Magic Square. The numbers add up to the same total in every direction. Every row, column and diagonals adds up to 111. But there are some missing numbers. Fill-in the missing numbers. All the numbers must be different:-

		7
13	37	

3. Suppose you and your three friends are at home. You share the cake equally. What fraction of the cake, each of you get? However, if you decide not to eat the whole cake but give away half of the cake to four other poor children and share the rest. What fraction of the cake do each poor child get? What lesson (value) do you learn?

4. Write Roman numbers corresponding to 10, 100, 1000, 10000, 25, 250, 2500,

5. Write the following numbers in words: 3202, 5896, 5986, 2222, 8002, 4902, 1450, 7236, 5698, 4182

6. Write the place, place value and face value of the underlined digit in the following numbers: 5273, 2036, 7899, 8601, 6123, 9857, 3620, 9694, 2018, 2002

7. Write the expanded form of the following numbers: 7080, 4803, 659, 8416, 1203, 5217, 90256, 9000, 6523, 87463

8. Add the following numbers: $3589 + 620$, $7315 + 2095$, $4931 + 2388$, $1079 + 2971$, $5656 + 565$, $3528 + 3697$, $8863 + 7218$, $3000 + 1242 + 2023$, $4086 + 3274 + 1598$, $5392 + 2019 + 1639$

9. Subtract the following numbers: $2583 - 265$, $1822 - 553$, $6138 - 198$, $7271 - 1682$, $2871 - 1289$, $8252 - 1663$, $2703 - 174$, $7400 - 1573$, $1000 - 123$, $8001 - 2623$

10. Multiply the following numbers: 389×8 , 788×6 , 315×16 , 435×21 , 5643×906 , 8070×9 , 1851×133 , 5662×158 , 9941×63 , 256×946

ANNEXURE -VII- Maths

1- Solve the following:

- The population of a town is 198568. Out of them 45312 are men and 35678 are women. Find the number of children in the town.
- A shopkeeper has 2425 boxes of 24 pencils each. How many pencils do all the boxes have in all?
- Linda bought a coat for \$2265 and a saree for \$2150. She gave \$5000 to the shopkeeper. How much money did the shopkeeper return to her?
- The cost of 21 TV sets is \$95844. Find the cost of one TV set.
- A factory produces 24532 bulbs in a month. What is its annual production?
- There are 145968 bags of sugar, 236487 bags of wheat and some bags of rice in a godown. If the total number of bags in the godown is 450000, find the number of bags of rice.
- A factory manufactured 483685 toys in three weeks. The production in first week was 146345 toys and in second week 138152 toys. Find the production in the third week.
- The cost of a sofa set is \$9372. How much will 124 such sofa sets cost?
- There are 86 rooms in a school. 4356 students study there. Equal number of students sits in each room?
- 1575 students of a school want to go Agra by bus. If one bus can carry 75 students, how many buses are required to carry all the students?

2- Convert the following:

12 days into hours, 9 hours into minutes, 21 minutes into seconds, 5 months into days, 5 days into hours, 13 hours into minutes, 8 minutes into seconds, 3 days 20 hrs into hrs, 17 hrs 11 min into min, 11 min 2 sec into sec

3. Divide the following numbers:

$8402 \div 4$, $6035 \div 3$, $6305 \div 6$, $8001 \div 8$, $6063 \div 7$, $6885 \div 2$, $6040 \div 9$, $3600 \div 5$, $9463 \div 18$, $409 \div 11$

4. Convert the following into millimetres:

3cm 2mm, 6cm 8mm, 3cm 5mm, 4cm 9mm, 4cm 1mm, 5cm, 6cm, 3cm, 7cm, 9cm

5. Convert the following into meters:

5km 600m, 9km 52m, 6km 1m, 2km 126m, 7km 30m, 2km, 6km, 9km, 4km, 8km

ANNEXURE -VIII- Maths

Q1. Look at the table given below and answer following questions:

Sl. No.	Types of Boats	Quantity of fish carried in 1 trip	Speed of the boat
1.	Motor Boat	45 Kg	20 km/hr
2.	Machine Boat	50 kg	25 km/hr
3.	Double Decker Boat	95kg	22 km /hr
4.	Long Tail Boat	20kg	16km/hr

- What will be the total quantity of fishes carried by all the boats in 1 trip?
- What will be the total quantity of fishes carried by all the boats in 9 trips?
- How long will machine boat take to cover 225km?
- Which boat will cover more distance: Motor boat in 8hrs or Double Decker boat in 7 hrs?

Q 2. Look at the table given below and answer following questions

Sl. No	Types of Fish	Price per Kg
1.	Queen Angle Fish	₹ 120
2.	Burbot	₹ 90
3.	Allis Fish	₹ 300
4.	Catfish	₹ 150
5.	Sword Fish	₹ 200

- Rahul wants to buy 1kg Allis Fish, $\frac{1}{2}$ kg Queen Angle Fish and 2kg Catfish. How much will he pay to the shopkeeper?
- What will be the quantity of Sword Fish in ₹ 700?
- What costs more: 3kg Burbot fish or $2\frac{1}{2}$ kg Allis Fish?

Q 3 Special Number

The Special Number is

9,01,52,738

The value of the digit 9 is _____
 The value of the digit 8 is _____
 The face value of digit 0 is _____
 The Value of the digit 1 is _____

Comma inserted according to (Colour the correct box Pink) →

INDIAN PLACE VALUE SYSTEM

INTERNATIONAL PLACE VALUE SYSTEM

Kind of Number (Colour the correct box Green) →

EVEN

ODD

Write the Number in Expanded form

_____ + _____ + _____ + _____ + _____ + _____ + _____ + _____

Write the number name of the Special Number

Predecessor of Special Number

Successor of Special Number

10000 More than Special Number

10000 Less than Special Number

Smallest number with the digits of Special Number is
(Colour the correct option with Red)

10235789

2310789

10253897

Largest number with the digits of Special Number is
(Colour the correct option with Blue)

83152709

98753210


98753201

01235789

ANNEXURE -IX- Maths -Roman Numbers

Fill the roman values in crossword puzzle.

Criteria: Read the clues and cues given below. Do basic operations and fill in crossword.



Clues /cues:

1. 60 IN ROMAN .
2. VII + V =
3. D + D =
4. C - L =
5. 75 IN ROMAN =
6. CONVERT XXVIII IN HINDU ARABIC
7. $35 + 25 =$ _____ in ROMAN
8. $50 + 5 + 1 =$ _____ IN ROMAN
9. GREATER NUMBER BETWEEN XC AND XL _____
10. C - LV
11. LX - XXIX
12. D + C

Learning outcome: Students will learn Roman Numbers.

ANNEXURE -X- SCIENCE -FOOD AND HEALTH

1. Fill in the Blanks

- a) The nutrient that helps build muscles is _____.
- b) Vitamin D helps in the absorption of _____.
- c) Lack of iron in the body causes _____.
- d) Milk is a good source of _____.
- e) A diet that includes all nutrients in the right amount is called _____.

2. True or False.

- a) Fats are not needed by our body. _____
- b) Balanced diet helps us stay healthy. _____
- c) Vitamin C deficiency causes scurvy. _____
- d) Proteins are energy-giving foods. _____
- e) Junk food is a good example of a balanced diet. _____

3. Multiple Choice Questions (MCQs)

- a) Which of these is a protective nutrient?
 - i) Carbohydrates ii) Proteins iii) Vitamins iv) Fats
- b) Deficiency of which mineral causes goitre?
 - i) Iron ii) Calcium iii) Iodine iv) Sodium
- c) What is the main function of carbohydrates?
 - i) Build body ii) Give energy iii) Fight disease iv) None
- d) Rickets is caused due to the lack of:
 - i) Vitamin A ii) Vitamin C iii) Vitamin D iv) Iron
- e) Iron-rich food includes:
 - i) Apples ii) Oranges iii) Milk iv) Rice

4. Short Answer Questions

- a) What is a balanced diet?

- b) Name any two sources of protein.

5. Identify the Nutrient

Given below are food items. Write the main nutrient they provide:

- a) Rice _____ b) Egg _____ c) Spinach _____
- d) Butter _____ e) Orange _____

6. Define the Following

- a) Deficiency Disease

b) Nutrient

7. Match the Disease with its Cause

Disease	Caused by Lack of
1. Anaemia	a. Vitamin A
2. Scurvy	b. Iron
3. Goitre	c. Iodine
4. Night Blindness	d. Vitamin C
5. Rickets	e. Vitamin D


8. Application-Based Question

Ravi eats only noodles and chips every day. He falls sick often and feels tired.

a) Do you think Ravi is eating a balanced diet? Why or why not?

b) Suggest 3 food items he should add to his diet to become healthy.

9. Diagram Based Question



Label the food pyramid diagram with the correct food groups:

(Attach a simple pyramid with sections for grains, fruits, vegetables, protein, dairy, fats)

ANNEXURE -XI- COMPUTER SCIENCE

1). Make a chart on the following Topic

SECTION A- Generation of computer

SECTION B- History of computer

SECTION C- Uses of computers

2). Answer the following question:

1. Who is known as the father of computer?

2. Who invented Napier's Bone and from where its name comes from.

3. What types of technology used in third generation computer?

4. Write any two limitation of computer.

5. Write full form of computer.

3) On A4 size sheet, make a poster on cyber-crime.



केवल अविभावकों के लिए

प्रिय अविभावक, नमस्कार आप से विनम्र अनुरोध है कि नीचे आपके बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ी कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं। क्या आपका बच्चा अपने दैनिक जीवन में इन अच्छी आदतों का अनुसरण / पालन करता है। कृपया हां / ना में उत्तर दें।

1. क्या आपके बच्चे ने सुबह उठकर सबसे पहले अपने बड़ों का अभिवादन किया? 1-----
2. क्या आपके बच्चे ने दंतध्वान एवं नित्य क्रिया से निवृत्त होकर ॐ का उच्चारण किया? 2-----
3. क्या आपका बच्चा अपने से बड़ों का सम्मान करता है? 3-----
4. क्या आपका बच्चा हमेशा सच बोलता है? 4-----
5. क्या आपका बच्चा अपना गृहकार्य समय पर पूरा करता है? 5-----
6. क्या सभी के साथ आपके बच्चे का व्यवहार अच्छा होता है? 6-----
7. आपका बच्चा अपने छोटी से प्यार करता है? 7-----
8. आपके बच्चे ने कभी किसी का मज़ाक उड़ाया है? 8-----
9. क्या आपका बच्चा ज़रूरत मंद की सहायता करता है? 9-----
10. क्या आपका बच्चा मेहनती है? 10-----
11. क्या वो हमेशा प्यार से बातें करता है? 11-----
12. क्या आपका बच्चा बड़ों के बीच बोलता है? 12-----
13. क्या वो दूसरे की वस्तुएँ पूछ कर लेता है? 13-----
14. क्या आपका बच्चा दूसरों के ऊपर कॉमेंट्स पास करता है और मज़ाक बनाता है? 14-----
15. दूसरे द्वारा आपके बच्चे को कोई वस्तु दिए जाने पर क्या वो उसको धन्यवाद करते हैं? 15-----
16. आपका बच्चा अपनी किताबें व्यवस्थित करके रखता है? 16-----
17. क्या वह सुबह समय पर उठता है? 17-----
18. क्या उसके पढ़ाई करने का समय निश्चित है? 18-----
19. क्या वह गलती करने पर माफ़ी माँगता है? 19-----
20. क्या वह दूसरों के काम में दखल देता है? 20-----
21. क्या वो बाहर की चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करता है? 21-----
22. क्या वह अपने से बड़ों की बातें मानता है? 22-----
23. क्या वह घर के कामों में अपनी मम्मी की सहायता करता है? 23-----
24. क्या वह किसी से द्वेष भावना रखता है? 24-----
25. क्या वह अपने काम के प्रति ईमानदार है? 25-----
26. क्या वह दिन में दो बार ब्रुश करता है? 26-----
27. खाना खाने से पहले व खाना खाने के बाद हाथ साबुन से अच्छी प्रकार से धोता है? 27-----
28. क्या वह अपने नाखूनों को साफ़ रखता है? 28-----
29. क्या आपका बच्चा सुबह का नाश्ता सही समय पर करता है? 29-----
30. क्या आप का बच्चा पौष्टिक भोजन करता है? 30-----

केवल अविभावकों के लिए

प्रिय अविभावक, नमस्कार आप से विनम्र अनुरोध है कि नीचे आपके बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ी कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं। क्या आपका बच्चा अपने दैनिक जीवन में इन अच्छी आदतों का अनुसरण / पालन करता है। कृपया हां / ना में उत्तर दें।

1. क्या आपके बच्चे ने सुबह उठकर सबसे पहले अपने बड़ों का अभिवादन किया? 1-----
2. क्या आपके बच्चे ने दंतध्वान एवं नित्य क्रिया से निवृत्त होकर ॐ का उच्चारण किया? 2-----
3. क्या आपका बच्चा अपने से बड़ों का सम्मान करता है? 3-----
4. क्या आपका बच्चा हमेशा सच बोलता है? 4-----
5. क्या आपका बच्चा अपना गृहकार्य समय पर पूरा करता है? 5-----
6. क्या सभी के साथ आपके बच्चे का व्यवहार अच्छा होता है? 6-----
7. आपका बच्चा अपने छोटे से प्यार करता है? 7-----
8. आपके बच्चे ने कभी किसी का मज़ाक उड़ाया है? 8-----
9. क्या आपका बच्चा ज़रूरत मंद की सहायता करता है? 9-----
10. क्या आपका बच्चा मेहनती है? 10-----
11. क्या वो हमेशा प्यार से बातें करता है? 11-----
12. क्या आपका बच्चा बड़ों के बीच बोलता है? 12-----
13. क्या वो दूसरे की वस्तुएँ पूछ कर लेता है? 13-----
14. क्या आपका बच्चा दूसरों के ऊपर कॉमेंट्स पास करता है और मज़ाक बनाता है? 14-----
15. दूसरे द्वारा आपके बच्चे को कोई वस्तु दिए जाने पर क्या वो उसको धन्यवाद करते हैं? 15-----
16. आपका बच्चा अपनी किताबें व्यवस्थित करके रखता है? 16-----
17. क्या वह सुबह समय पर उठता है? 17-----
18. क्या उसके पढ़ाई करने का समय निश्चित है? 18-----
19. क्या वह गलती करने पर माफ़ी माँगता है? 19-----
20. क्या वह दूसरों के काम में दखल देता है? 20-----
21. क्या वो बाहर की चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करता है? 21-----
22. क्या वह अपने से बड़ों की बातें मानता है? 22-----
23. क्या वह घर के कामों में अपनी मम्मी की सहायता करता है? 23-----
24. क्या वह किसी से द्वेष भावना रखता है? 24-----
25. क्या वह अपने काम के प्रति ईमानदार है? 25-----
26. क्या वह दिन में दो बार ब्रुश करता है? 26-----
27. खाना खाने से पहले व खाना खाने के बाद हाथ साबुन से अच्छी प्रकार से धोता है? 27-----
28. क्या वह अपने नाखूनों को साफ़ रखता है? 28-----
29. क्या आपका बच्चा सुबह का नाश्ता सही समय पर करता है? 29-----
30. क्या आप का बच्चा पौष्टिक भोजन करता है? 30-----

SCHOOL ANNUAL MAGAZINE CALLING!!!

Dear Students,

Greetings of the day!

The school magazine is gearing up to showcase the creative pursuits of its talented students. Hence, we invite the valuable entries from you for the session 2025-26.

You can submit:

1. Self-composed poems, articles, stories, drawings on any topic.
2. Decent jokes and puzzles.
3. Articles (self-composed) on special days that take place throughout the year.
4. You can submit articles/poems on the following topics also:
 - i) Your favourite music band and why is it special to you.
 - ii) Write an article stating some of the ways in which children can handle bullying in school. You can share a related story also.
 - iii) Why Discipline is Critical, It Gives You Natural Power, Increases Potential.
 - iv) An Unforgettable Act of Kindness: Write about an act of kindness that you did or was done for you.
 - v) Eco Warriors: Adopt a plant this summer and narrate how you felt taking care of it. (Attach related photographs)
 - vi) Superheroes Amongst Us: Story of a person around you, who has been a real superhero (especially in recent Indo-Pak Conflict)
 - vii) Let's Play Sports: Enjoying and learning different games during vacations
 - viii) Recycling and Upcycling projects: Any project that you took up during the vacations to recycle or upcycle. Please attach the related photographs.
 - ix) Math Games and Puzzles & Innovative and Easy Kids Recipes
 - x) The Amazing Word of Animals: Fascinating Facts and Quiz
 - xi) Reviews and Recommendations of Good Books

Last Date for Submission: July 15, 2025

Email id for sending the content: Lteskks@gmail.com

Kindly keep the following points in mind while submitting your work:

1. Content for the magazine to be emailed on the given email id only.
2. Mention name, class and section properly
3. Mail self-composed articles, poems, stories, puzzles etc. in MS Word format only along with your passport size photo.
4. All pictures and drawings should be mailed in JPEG format.
5. Only one creative work will be accepted per child.

Sd.

PRINCIPAL, KKCS